

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2012—आषाढ़ 8, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं